

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून : दिनांक 24 जुलाई, 2018

विषय : खेल विभाग में कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों की चयन प्रक्रिया में संशोधन/विलोपित विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-145/VI-2/2014-1(11)/2006, दिनांक 26 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित (क) प्रशिक्षकों की श्रेणी के क्रमांक संख्या-6 एवं (ख) खेल उपलब्धियां के क्रमांक संख्या-7 को निम्न प्रकार से संशोधित/विलोपित करने का निर्णय लिया गया है :-

कॉलम-1 (पूर्व नियम)	कॉलम-2 (यथा-संशोधित नियम)
1	2
“अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभाग/सीनियर नॉर्थ जोन में प्रतिभाग/जूनियर नेशनल में पदक/सब जूनियर में पदक/नेशनल स्कूल गेम्स में पदक/एन.आई.एस. सर्टिफिकेट कोर्स/भारतीय सेवा में सर्विसेज/कमाण्ड/अखिल पुलिस गेम्स में पदक प्राप्तकर्ता/शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमाधारी एम.पी.एड./डी.पी.एड/बी.पी.एड खिलाड़ी/प्रशिक्षक”	“अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभाग/सीनियर नॉर्थ जोन में प्रतिभाग/जूनियर नेशनल में पदक/सब जूनियर में पदक/नेशनल स्कूल गेम्स में पदक/एन.आई.एस. सर्टिफिकेट कोर्स/भारतीय सेवा में सर्विसेज/कमाण्ड/अखिल पुलिस गेम्स में पदक प्राप्तकर्ता/खिलाड़ी/प्रशिक्षक”
“शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमाधारी एम.पी.एड./डी.पी.एड/बी.पी.एड खिलाड़ी/प्रशिक्षक”	-विलोपित-

कमश-2/-

- 2- उक्त शासनादेश दिनांक 26 नवम्बर, 2014 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।
- 3- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या- 297 / VI / 2018-1(11) / 2006, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख निजी सचिव/निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख निजी सचिव/निजी सचिव, मा० खेल मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० खेल मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव/निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला क्रीडाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. प्रधानाचार्य, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून/स्पोर्ट्स कॉलेज, पिथौरागढ़।
9. एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।